



Australian
BORDER FORCE

ऑस्ट्रेलिया में आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य क्वारंटाइन (एकाँतवास) से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी

ऑस्ट्रेलिया में आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य क्वारंटाइन (एकाँतवास) से जुड़े प्रबंधों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी

13 अगस्त 2020

COVID-19 महामारी पर प्रतिक्रिया करते हुए, ऑस्ट्रेलिया ने यात्रा प्रतिबंध और अनिवार्य क्वारंटाइन (एकाँतवास) आवश्यकताएँ लागू की हैं।

ऑस्ट्रेलिया आने वाले सभी यात्रियों को ऑस्ट्रेलिया में आगमन करने के अपने पहले स्थान पर 14 दिनों के लिए अनिवार्य क्वारंटाइन (एकाँतवास) करना होगा।

यात्रियों को इस अवधि के दौरान उचित आवास उपलब्ध कराया जाएगा और उन्हें 14 दिनों के अनिवार्य क्वारंटाइन (एकाँतवास) अवधि के पूरा होने तक ऑस्ट्रेलिया में (अपने गृह निवास सहित) यात्रा करने या किसी डोमेस्टिक कनेक्शन में यात्रा जारी रखने की अनुमति नहीं होगी।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार की सहायता से राज्य और टेरेटरी की सरकारें क्वारंटाइन के प्रबंधों की व्यवस्था करेंगी। अधिकांश राज्यों और टेरेटरियों में, आपको क्वारंटाइन की लागत में योगदान का भुगतान देने के लिए कहा जाएगा। अधिक जानकारी राज्य और टेरेटरी सरकार की स्वास्थ्य वेबसाइट्स पर पाई जा सकती है।

ट्रांसिट यात्री

ऑस्ट्रेलिया आगमन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसिट यात्री उस शहर से कोई दूसरी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भर सकते हैं जिस शहर में उन्होंने आगमन किया हो। ट्रांसिट यात्रियों के लिए यह ज़रूरी है कि

- यदि उन्हें अधिकतम 8 घंटे तक उनकी अगली उड़ान के लिए प्रतीक्षा करनी हो तो वे एयरपोर्ट पर ही रहें
- यदि उनकी अगली उड़ान 8 से 72 घंटे बाद हो तो वे राज्य द्वारा नामांकित सुविधा केंद्र पर अनिवार्य क्वारंटाइन के लिए जाएँ

ट्रांसिट यात्री ऑस्ट्रेलिया में कहीं ओर यात्रा नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि किसी दूसरे शहर से उड़ान भरने वाली किसी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पकड़ने के लिए भी नहीं।

ऑस्ट्रेलिया आगमन पर क्या उम्मीद करें

- आपके लिए यह ज़रूरी होगा कि ऑस्ट्रेलिया आने पर आप हवाई कर्मचारियों तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा दिए सभी निर्देशों का अनुपालन करें।
- आप अपना सामान लेंगे और सामान्य सीमा निकास प्रक्रियाओं (कस्टम, इमीग्रेशन और बायोसिक्योरिटी) से होकर गुजरेंगे।
- सीमा निकास के बाद, सरकारी अधिकारी आपको बसों में जाने का निर्देश देंगे जो आपको आपके आवास पर ले जाएँगी।
- हो सकता है कि अपने आवास तक पहुँचने के लिए आपको लम्बी अवधि तक प्रतीक्षा करनी पड़े। सरकारी अधिकारी इन प्रतीक्षा अवधियों को जितना आरामदेह संभव होगा, बनाने की कोशिश करेंगे। आपके सहयोग और धैर्य की सराहना की जाती है।

14 दिन की क्वारंटाइन अवधि के लिए प्रबंध

- क्वारंटाइन आवास पर सरकारी अधिकारी आपके आने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे प्रसन्नता से आपके आने के बाद यदि आपके कोई सवाल हैं तो उनका जवाब देंगे तथा आपकी क्वारंटाइन अवधि के दौरान आपकी सहायता करेंगे।
- आवास स्थान पर वे सभी सुविधाएँ और सेवाएँ मौजूद होंगी जिनकी आपको वहाँ ठहरने के दौरान आवश्यकता होगी। आवास स्थान में सुरक्षित और स्वच्छ निवास, भोजन व पानी और चिकित्सीय सहायता शामिल होगी।
- यदि आपकी कोई स्वास्थ्य आवश्यकताएँ हों, जैसे कि नियमित दवाईयों के लिए प्रिस्क्रिप्शन, तो इन आवश्यकताओं को सुगम बनाने के लिए प्रबंध किए जाएँगे।
- पहले 48 घंटे में और फिर क्वारंटाइन के 10 से 12 दिनों के बीच COVID-19 के लिए आपका टेस्ट किया जा सकता है। यदि आप टेस्ट करवाने से मना करते/करती हैं, तो हो सकता है कि आपको अधिक लम्बी अवधि के लिए क्वारंटाइन करना पड़े। टेस्ट करवाने के सही-सही प्रबंध राज्यों और टेरेटरियों पर निर्भर करेंगे।

Important update relating to all passengers arriving to Australia - ABF factsheet - 12092020 - Hindi



Australian
BORDER FORCE

ऑस्ट्रेलिया में आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य क्वारंटाइन (एकाँतवास) से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी

- बाँयोसिक्योरिटी अधिनियम 2015 और लागू राज्य विधान के अधीन, आपके लिए तब तक नियत आवास-स्थान पर रहना ज़रूरी होगा जब तक कि आपको चिकित्सीय तौर पर ऑस्ट्रेलियाई समुदाय में प्रवेश करने की मंजूरी न दे दी जाए।

ये प्रबंध राज्य और टेरेटरी की सरकारों द्वारा लागू किए जाएँगे और ऑस्ट्रेलियाई सरकारी संस्थाएँ इनका समर्थन करेंगी।

आपकी 14 दिन की क्वारंटाइन अवधि की समाप्ति

जब आप अनिवार्य क्वारंटाइन अवधि पूरी कर लेते/लेती हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं ओर यात्रा कर सकते/सकती हैं। कृपया इस बात से अवगत रहें कि राज्यों और टेरेटरियों की अपनी-अपनी प्रवेश और क्वारंटाइन आवश्यकताएँ हो सकती हैं। आपको यात्रा से पहले प्रत्येक राज्य और टेरेटरी के लिए प्रवेश और क्वारंटाइन आवश्यकताओं की जांच करनी चाहिए।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार के स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट में यात्रा प्रतिबंधों से सम्बन्धित राज्य और टेरेटरी की जानकारी के लिंक्स शामिल हैं
<https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-restrictions/coronavirus-covid-19-advice-for-international-travellers#quarantine-for-incoming-travellers>